

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री युवा इकाई का समारोह आयोजित

उद्यमी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और खुशहाल राजस्थान के निर्माण के लिए कार्य करें- राज्यपाल

जयपुर, 13 जुलाई। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और खुशहाल राजस्थान के निर्माण के लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के साथ नवाचार अपनाते हुए युवा स्टार्ट अप्स के लिए वातावरण बनाए जाने का आह्वान किया है।

राज्यपाल श्री मिश्र बुधवार को मेरिण्ट होटल में वाणिज्य एवं उद्योग संगठन 'फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री' (फोर्टी) युवा इकाई के कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यों में तीव्र औद्योगिक विकास से ही देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। उन्होंने ऐसा औद्योगिक माहौल तैयार करने पर बल दिया जिससे ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास, क्षमता संवर्द्धन, उद्यमिता और रोजगार के भरपूर अवसर सृजित हो सकें।

राज्यपाल ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि, अच्छी पैकेजिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रभावी विपणन पर बल दिया जाए, तो भारत निश्चित ही विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन कर उभरेगा। उन्होंने महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि स्थानीय महिलाओं के बनाए उत्पादों को डिजिटल तकनीक के जरिए कैसे विश्व बाजार तक पहुंचाया जाए और कैसे महिला उद्यमिता को हर स्तर पर बढ़ावा मिले इसके लिए कार्य किया जाए।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कोविड के दौर से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अर्थतंत्र, श्रमशक्ति और पूंजी-निर्माण पर घरेलू नियंत्रण इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लघु, अति लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास से ही 'आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बनाते हुए वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फोर्टी सहित वाणिज्यिक संगठनों को परम्परागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े गांवों को सूचीबद्ध कर यहां के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने की पहल करनी चाहिए।

विधायक श्री सतीश पूनिया ने देश की एकता, अखण्डता और प्रगति के लिए युवाओं से पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश की तरक्की के लिए समन्वित और दूरदर्शी प्रयास किए जाने पर बल दिया।

ब्राह्मण महासभा के संरक्षक श्री एच.सी.गणेशिया ने कहा कि युवाओं को संविधान की मूल भावना और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए राज्यपाल श्री मिश्र की पहल पर महती कार्य किया जा रहा है।

आरम्भ में राज्यपाल श्री मिश्र ने कार्यक्रम में संविधान की उद्देश्यिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया।

सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री रवीन्द्र उपाध्याय ने कार्यक्रम में समधुर प्रस्तुति दी।

फोर्टी अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने अपने संबोधन में संगठन की सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम में फोर्टी युवा इकाई के राज्य अध्यक्ष श्री धीरेंद्र राघव सहित संस्था के पदाधिकारी, उद्यमी तथा गणमान्यजन उपस्थित रहे।